

**भारत निर्वाचन आयोग**  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 590/ईसीआई/एलईटी/टीआरजी-टीआरजी-1/एमआईएससी/2016

तारीख 28 जुलाई, 2016

**निविदा नोटिस**

इसके क्रेडिट कार्ड स्टाइल में कस्टमाइजेशन और इसमें ई सी आई एवं आई आई आई डी ई एम के लोगो के साथ 500 (पांच सौ) की संख्या में 16 जी बी पेन ड्राइव की आपूर्ति के लिए प्राधिकृत डीलरों से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। सभी दरें निविदा नोटिस के साथ संलग्न विहित फॉर्मेट में कोट की जाएंगी।

2. इच्छुक एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे सीलबंद लिफाफों में अपनी दरें कोट करें। लिफाफे के उपर "आई आई आई डी ई एम के लिए 16-जी बी पेन ड्राइव की आपूर्ति" लिखा होना चाहिए।
3. इच्छुक डीलर/फर्म को अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण निविदा दस्तावेजों को अवर सचिव (प्रशिक्षण), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को तारीख 08 अगस्त, 2016 तक अपराह्न 3.00 बजे से पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए। सीलबंद निविदाएं निर्वाचन भवन के भू-तल पर अवस्थित प्राप्ति एवं प्रेषण (आर एंड आई) अनुभाग में भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। भारत निर्वाचन आयोग डाक में हुए किसी नुकसान/विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. निविदा को आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति द्वारा निविदाकारों के प्रतिनिधियों, यदि कोई हैं, की उपस्थिति में, जो उस समय मौके पर उपस्थित रहना चाहते हैं, संविधान हॉल, 7वां तल, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में निर्धारित तारीख 08 अगस्त, 2016 को अपराह्न 4.30 बजे खोला जाएगा।
5. भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी चरण में कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को भागतः या पूर्णतः स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
6. संपूर्ण मदों की आपूर्ति क्रय आदेश जारी किए जाने की तारीख से 03 दिवसों के भीतर पूरी की जानी होगी। निविदाकार बोली को सीधे या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि, निविदा, निविदाकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो निविदा पर निविदाकार के विधिक मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
7. निविदा की लागत शून्य है। निविदा दस्तावेज अंतरणीय नहीं है।
8. आई आई आई डी ई एम 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त पेन ड्राइव, यदि अपेक्षित हो, का प्रापण कर सकता है। फर्म उसी दर पर अतिरिक्त पेन ड्राइव की आपूर्ति करेगा।
9. किसी विवाद की स्थिति में, भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
10. पेन ड्राइव प्राप्त होने के बाद मूल बिल प्रस्तुत किए जाने पर चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

भवदीय,

(बिनोद कुमार)  
अवर सचिव (प्रशिक्षण)

पेन ड्राइव की आपूर्ति

क्र. सं.	मद का विवरण	लगभग मात्रा	मूल्य (सभी करों सहित)
1.	16 जी बी पेन ड्राइव जिसमें क्रेडिट कार्ड स्टाइल में इसका कस्टमराइजेशन और ई सी आई एवं आई आई आई डी ई एम का लोगो हो,	500	

फर्म का नाम:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी:

तारीख: